



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 402]

No. 402]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 3, 1983/आश्विन 11, 1905

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 1983/ASVINA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1983

सं० 283/83 सीमा-शुल्क

सां० कां० नि० 783(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधि-  
नियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने  
पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसमें उपाखण्ड सारणी के  
स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975  
(1975 का 51) की पहली अनुसूची के ऐसे अध्याय के, जो उक्त मार्गणी  
के स्तम्भ (2) में की तरफ़ाणी प्रविष्टि से विनिर्दिष्ट है अन्तर्गत आने  
वाले माल को, जब उसका उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तरफ़ाणी  
प्रविष्टि से विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माण करने के लिए भारत में आयात  
किया जाए,

(क) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के  
उत्तरे भाग से जितना मूल्य के 50 प्रतिशत की दर पर संगणित  
रकम से अधिक है ; और

(ख) द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अर्थात् उस पर उद्ग्र-  
हणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात्—

(i) ऐसे किसी अधिकारी का, जो, अध्यास्थिति, भारत सरकार के  
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के संयुक्त निदेशक या किसी राज्य के  
उद्योग निदेशालय के संयुक्त निदेशक या भारत सरकार के  
तकनीकी विकास महानिदेशालय के ऊपर औद्योगिक सहाय-  
कार में नीचे की शर्तों का न हो यह समाधान हो जाता है  
कि प्रस्तुत माल उपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित  
है और इस निमित्त प्रमाणित करता है और उपरोक्त  
छूट की मजूरी की सिफारिश करता है।

परन्तु यह शर्त निम्नलिखित प्रकार की आयात अनुशक्तियों द्वारा  
आयात किए गए माल की बाबत लागू नहीं होगी, अर्थात्

(क) स्वतः अनुशक्तियों ; और

(ख) अनुपूरक अनुशक्तियाँ।

(ii) आयातकर्ता, सीमाशुल्क सहायक कम्प्यूटर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप  
में और राजि के लिए बख्शपत्र लिप्यादित करके स्वयं को इस बात के  
लिए आश्वस्त करेगा कि वह ऐसे माल की बाबत जिसके बारे में सीमाशुल्क  
सहायक कम्प्यूटर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं होता है कि वह  
पूरीत प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है, मांग किए जाने पर उक्तनी  
रकम का सदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अन्तर्निष्ठ छूट के न दिए  
जाने की दशा में ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात किए जाने  
के समय पहले ही सदाय शुल्क के बोझ के अन्तर के बराबर हो।

## सारणी

नम सीमाशुल्क माल का वर्णन माल के विनिर्माण के लिए सं० टैरिफ अवि- नियम, 1975 की पहली अनुसूची का अध्याय

1	2	3	4
1	84, 85 या 92	(i) स्पंदन ट्रांसफार्मर (ii) निम्नलिखित मशीनों के पुर्जों (जो तापगतिक, बालक या ट्रांजिस्टर या वैसे ही अर्द्धचालक साधन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माईक्रो परिपथ या पेपर संघारित्रों से विभिन्न संघारित्रों के पुर्जों में निहित हैं), अर्थात् (क) लाईन प्रिंटर (ख) मैट्रिक्स प्रिंटर (ग) टेली टाईप टर्मिनल (घ) ग्राफिक टर्मिनल (ङ) पेपर टेप रीडर (च) कार्ड रीडर (छ) चुम्बकीय टेप बहन या नियंत्रक (ज) फलोपी डिस्क बहन या नियंत्रक (झ) आलेखित्र (ञ) प्रिंटर आलेखित्र (ट) चुम्बकीय डिस्क बहन या नियंत्रक (ठ) पेपर टेप पत्र (ड) कार्ड पत्र।	सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित लेखा मशीन या बीजक बनाने की मशीन, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित परिकल्पित, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित कैश रजिस्टर, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित फोटो कम्पोजिंग और टाईप सेटिंग मशीन, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित डाटा प्रिंटर, प्रचिष्ट और दूरमिति पर आधारित पद्धति, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित डाटा अर्जन और मानोटरन उपकरण, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित अभिज्ञ के थोड़ा किरण ट्यूब सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित टेलीफोन, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड, यातायात विश्लेषक कम्प्यूटर, कम्प्यूटर उपांग साधन, लेखा मशीन या बीजक बनाने की मशीन के उपांग साधन, कैश रजिस्टर के उपांग साधन, परिकल्पित के उपांग साधन या फोटो कम्पोजिंग और टाईप सेटिंग मशीन के उपांग साधन।

[फा० सं० 346/32/83-टी आर गे]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd October, 1983

No. 233/83-CUSTOMS

G.S.R.783(B).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962),

the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling within the Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India for the manufacture of the goods specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, from :—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of 50 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act,

subject to the following conditions, namely:—

(i) an officer not lower in rank than a Joint Director in the Department of Electronics of the Government of India or a Joint Director in the Directorate of Industries of a State or an Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development of the Government of India, as the case may be, is satisfied that the goods in question are required for the purpose specified above and certifies to this effect and recommends grant of the above exemption ;

Provided that this condition shall not apply in the case of goods imported against the following types of import licences, namely:—

(a) Automatic Licences ; and

(b) Supplementary Licences.

(ii) the importer shall, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs bind himself to pay, on demand, in respect of such goods as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

TABLE

Sl. No.	Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975.	Description of goods	For the manufacture of goods
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	84, 85 (i) Pulse transformers or 92 (ii) Parts other than parts containing thermionic valves or transistors or similar semiconductor devices or light emitting diodes or electronic microcircuits or capacitors other than paper capacitors of the following items, namely :—		Microprocessor based accounting or invoicing machines, microprocessor based calculators, microprocessor based cash registers, microprocessor based photo composing and type setting machines, microprocessor based data entry and tele-
	(a) Line Printers		

(1)	(2)	(3)	(4)
	(b) Matrix Printers		mctry based systems,
	(c) Teletype terminals		microprocessor based
	(d) Graphic terminals		data acquisition and
	(e) Paper tape readers		monitoring equip-
	(f) Card readers		ment microprocessor
	(g) Magnetic tape drives or		based intelligent
	controllers		cathode ray tubes,
	(h) Floppy disc drives or		microprocessor based
	controllers		electronic keyboards,
	(i) Plotters		microprocessor based
	(j) Printer Plotters		telephone traffic ana-
	(k) Magnetic disc drives or		lyzers computers,
	Controllers		computer peripheral
	(l) Paper tape punches		devices, peripheral
	(m) Card punches.		devices of account-
			ing or invoicing
			machines, peripheral
			devices of cash regis-
			tors, peripheral devic-
			es for calculators or
			peripheral devices of
			photo composing and
			type setting machines

[F. No. 346/32/83-TRU]

सं० 284/83-सीमाशुल्क

सां० का० नि० 784(अ):—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 257/83 सीमाशुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, शर्तें (ii), (iii) और (iv) के स्थान पर निम्नलिखित शर्तें रखी जाएगी, अर्थात्—

“(ii) आयातकर्ता, उक्त मशीनों के आयात के समय, सीमा शुल्क सहायक कम्प्यूटर के समक्ष, संयुक्त मुख्य आयात नियमित नियंत्रक से अर्पित पंक्ति के अधिकारी द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि—

(i) आयातकर्ता ने मुख्य आयात नियमित नियंत्रक द्वारा इस आशय का बंधपत्र निष्पादित कर दिया है कि—

(क) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट आयातित करघा की दशा में, ऐसे करघों द्वारा उत्पादित माल का 75 प्रतिशत भारत से बाहर निर्यातित किया जाएगा; और

(ख) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट आयातित रोटार स्पिनिंग मशीन की दशा में, ऐसी रोटार स्पिनिंग मशीनों द्वारा उत्पादित माल का 75 प्रतिशत, भारत से बाहर निर्यातित किया जाएगा या इस प्रकार उत्पादित माल का उपयोग, भारत से बाहर निर्यातित फैब्रिकों के उत्पादन में किया जाएगा, और

(ग) उपरोक्त शर्तें (ii) (1) के (क) और (ख) में उल्लिखित निर्यात बाध्यता, यथास्थिति, उक्त करघों पर या उक्त रोटार स्पिनिंग मशीनों पर उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से आठ वर्ष तक पूरी की जाएगी, और

(2) आयातकर्ता ने उन अनुबंधों का पालन करने का वचनबद्ध किया है जो मुख्य आयात नियमित नियंत्रक द्वारा उक्त निर्यात बाध्यताओं की मानिटर करने और उन्हें प्रवृत्त करने के लिए जारी किया जाए।”

[फा० सं० 346/31/82 टी० आर० यू०]

## No. 284/83-CUSTOMS

G.S.R. 784(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 257/73-Customs, dated the 1st September 1983, namely:—

In the said notification, for conditions (ii), (iii) and (iv), the following condition shall be substituted, namely:—

“(ii) the importer, at the time of import of the said machines produces to the Assistant Collector of Customs a certificate issued by an officer not lower in rank than a Joint Chief Controller of Imports and Exports to the effect that—

(1) the importer has executed a bond specified by the Chief Controller of Imports and Exports to the effect that—

(a) in the case of imported looms specified in the said Table, 75% of the goods produce by such looms shall be exported out of India; and

(b) in the case of imported Rotor Spinning Machines specified in the said Table, 75% of the goods produced by such Rotor Spinning Machines shall be either exported out of India or the goods so produced shall be utilised in the production of fabrics exported out of India; and

(c) the export obligation mentioned in (a) and (b) of condition (ii)(1) above shall be fulfilled for a period of eight years from the commencement of production on the said looms or on the said Rotor Spinning Machines, as the case may be; and

(2) the importer has undertaken to comply with such instructions as are issued by the Chief Controller of Imports and Exports to monitor and enforce the fulfilment of the said export obligation.”

[F. No. 346/31/82-TRU]

सं० 285/83 सीमाशुल्क

सां० का० नि० 785(अ):—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना का जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा।

## सारणी

क्रम अधिसूचना सं० और सं० तारीख	संशोधन	
1	2	3
1. 229/83 सीमा शुल्क तारीख 18 अगस्त, 1983	न। - निम्नलिखित शर्तें (i) के स्थान पर निम्नलिखित शर्तें रखी जाएगी, अर्थात्—	“ऐसे किसी अधिकारी का, जो, यथास्थिति, भारत सरकार के

1	2	3	1	2	3
	इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के संयुक्त निदेशक या किसी राज्य के उद्योग निदेशालय के संयुक्त निदेशक या भारत सरकार के तकनीकी विकास महांनिदेशालय के अपर औद्योगिक सलाहकार से नीचे की पंक्ति का न हो, यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत माल ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और इस निमित्त प्रमाणित करता है और उपरोक्त छूट की मंजूरी की सिफारिश करता है :				किसी राज्य के उद्योग निदेशालय के संयुक्त निदेशक या भारत सरकार के तकनीकी विकास महांनिदेशालय के अपर औद्योगिक सलाहकार से नीचे की पंक्ति का न हो, यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत माल ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और इस निमित्त प्रमाणित करता है और उपरोक्त छूट की मंजूरी की सिफारिश करता है ;
	परन्तु यह शर्त निम्नलिखित प्रकार की आयात अनुज्ञप्तियों द्वारा आयात किए गए माल की बाबत लागू नहीं होगी, अर्थात्:-				परन्तु यह शर्त निम्नलिखित प्रकार की आयात अनुज्ञप्तियों द्वारा आयात किए गए माल की बाबत लागू नहीं होगी, अर्थात्:-
	(क) स्वतः अनुज्ञप्तियां; और				(क) स्वतः अनुज्ञप्तियां और ;
	(ख) अनुपूरक अनुज्ञप्तियां।”				(ख) अनुपूरक अनुज्ञप्तियां।”।
2. 230/83 सीमाशुल्क, तारीख 18 अगस्त, 1983	उक्त अधिसूचना में, शर्त (1) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:-		4. 232/83--सीमाशुल्क, तारीख 18 अगस्त, 1983		उक्त अधिसूचना में, -
	“ऐसे किसी अधिकारी का, जो, यथास्थिति, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के संयुक्त निदेशक या किसी राज्य के उद्योग निदेशालय के संयुक्त निदेशक या भारत सरकार के तकनीकी विकास महांनिदेशालय के अपर औद्योगिक सलाहकार से नीचे की पंक्ति का न हो, यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत माल ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और इस निमित्त प्रमाणित करता है और उपरोक्त छूट की मंजूरी की सिफारिश करता है :				(i) “किसी राज्य के उद्योग निदेशालय में किसी निदेशक” शब्दों के स्थान पर “किसी राज्य के उद्योग निदेशालय के किसी संयुक्त निदेशक” शब्द रखे जाएंगे,
	परन्तु यह शर्त निम्नलिखित प्रकार की आयात अनुज्ञप्तियों द्वारा आयात किए गए माल की बाबत लागू नहीं होगी, अर्थात्:-				(ii) “और वह प्रत्येक मामले में प्रमाणित करता है” शब्दों का खोप किया जाएगा ;
	(क) स्वतः अनुज्ञप्तियां ; और				(iii) “उपयोगकर्ता औद्योगिक है” शब्दों के पश्चात् “और इस निमित्त प्रमाणित करता है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएं ;
	(ख) अनुपूरक अनुज्ञप्तियां।”।				(iv) प्रारम्भिक दौर के पश्चात् निम्नलिखित परस्फुट अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
3. 231/83--सीमाशुल्क, तारीख 18 अगस्त, 1983	उक्त अधिसूचना में, शर्त (i) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:-		5. 233/83--सीमाशुल्क, तारीख 18 अगस्त, 1983		“परन्तु यह शर्त निम्नलिखित आयातकर्तओं द्वारा उक्त माल का आयात करने की दशा में लागू नहीं होगी, अर्थात्:-
	“ऐसे किसी अधिकारी का, जो, यथास्थिति भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के संयुक्त निदेशक या				(क) इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
					(ख) कम्प्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन लिमिटेड,
					(ग) सेमीकन्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड।”
					उक्त अधिसूचना में, शर्त (i) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:-
					“ऐसे किसी अधिकारी का, जो, यथास्थिति, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के संयुक्त निदेशक या किसी राज्य के

1	2	3
		उद्योग निदेशालय के संयुक्त निदेशक या भारत सरकार के तकनीकी विकास महानिदेशालय के अपर औद्योगिक सलाहकार से नीचे की पंक्ति का न हो, यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत माल ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और इस निमित्त प्रमाणित करता है और उपरोक्त छूट की मंजूरी की सिफारिश करता है :
		परन्तु यह शर्त निम्नलिखित प्रकार की आयात अनुज्ञप्तियों द्वारा आयात किए गए माल की बाबत लागू नहीं होगी, अर्थात्:—
		(क) स्वतः अनुज्ञप्तियों; और
		(ख) अनुपूरक अनुज्ञप्तियाँ ।”
6. 235/83--सोमाशुल्क, तारीख 18 अगस्त, 1983		उक्त अधिसूचना में, शर्त (i) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—
		“ऐसे किसी अधिकारी का, जो, यथास्थिति, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के संयुक्त निदेशक या किसी राज्य के उद्योग निदेशालय के संयुक्त निदेशक या भारत सरकार के तकनीकी विकास महानिदेशालय के अपर औद्योगिक सलाहकार से नीचे की पंक्ति का न हो, यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत माल ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और इस निमित्त प्रमाणित करता है और उपरोक्त छूट की मंजूरी की सिफारिश करता है :
		परन्तु यह शर्त निम्नलिखित प्रकार की आयात अनुज्ञप्तियों द्वारा आयात किए गए माल की बाबत लागू नहीं होगी, अर्थात्:—
		(क) स्वतः अनुज्ञप्तियाँ; और
		(ख) अनुपूरक अनुज्ञप्तियाँ ।”

[फा० सं० 346/23/83--टी० आर० यू०]  
के० एस० बैंकटगिरि, अवर सचिव

#### No. 285/83-CUSTOMS

G.S.R.785(B)—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table

867 GI/83—2

hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table .

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	229/83-Customs, dated the 18th August, 1983	In the said notification, for condition (i), the following condition shall be substituted, namely :— “(i) an officer not lower in rank than a Joint Director in the Department of Electronics of the Government of India or Joint Director in the Directorate of Industries of a State or an Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development of the Government of India, as the case may be, is satisfied that the goods in question are required for the purpose specified above and certifies to this effect and recommends grant of the above exemption: Provided that this condition shall not apply in the case of goods imported against the following types of import licences, namely— (a) Automatic Licences; and (b) Supplementary Licences.”.
2.	230/83-Customs, dated the 18th August, 1983	In the said notification, for condition (i), the following condition shall be substituted, namely :— “(i) an officer not lower in rank than a Joint Director in the Department of Electronics of the Government of India or a Joint Director in the Directorate of Industries of a State or an Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development of the Government of India, as the case may be, is satisfied that the goods in question are required for the purpose specified above and certifies to this effect and recommends grant of the above exemption: Provided that this condition shall not apply in the case of goods imported against the following types of import licences, namely:— (a) Automatic Licences; and (b) Supplementary Licences.”.

1	2	3	1	2	3
3. 231/83-Customs dated the 18th August, 1983	In the said notification, for condition (i), the following condition shall be substituted, namely:— “(i) an officer not lower in rank than a Joint Director in the Department of Electronics of the Government of India or a Joint Director in the Directorate of Industries of a State or an Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development of the Government of India, as the case may be, is satisfied that the goods in question are required for the purpose specified above and certifies to this effect and recommends grant of the above exemption :  Provided that this condition shall not apply in the case of goods imported against the following types of import licences, namely:  (a) Automatic Licences ; and (b) Supplementary Licences.”		5. 233/83-Customs, dated the 18th August, 1983	In the said notification, for condition (i), the following condition shall be substituted, namely:— “(i) an officer not lower in rank than a Joint Director in the Department of Electronics of the Government of India or a Joint Director in the Directorate of Industries of a State or an Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development of the Government of India, as the case may be, is satisfied that the goods in question are required for the purpose specified above and certifies to this effect and recommends grant of the above exemption :  Provided that this condition shall not apply in the case of goods imported against the following types of import licences, namely :—  (a) Automatic Licences ; and (b) Supplementary Licences.”	
4. 232/83-Customs, dated the 18th August, 1983	In the said notification :— (i) ) for the words “Director in the Directorate of Industries of a State”, the words “Joint Director in the Directorate of Industries of a State” shall be substituted ;  (ii) the words “and certifies in each case” shall be omitted;—  (iii) after the words “goods in question” the words “and certifies to this effect” shall be inserted;  (iv) the following proviso shall be inserted after the opening paragraph, namely:— “Provided that this condition shall not apply in the case of the said goods imported by the following importers, namely:—  (a) Electronics Trade and Technology Development Corporation Ltd.;  (b) Computer Maintenance Corporation Ltd.;  (c) Semiconductors Complex Ltd. ”.		6. 235/83-Customs, dated the 18th August, 1983	In the said notification, for condition (i), the following condition shall be substituted, namely:— “(i) an officer not lower in rank than a Joint Director in the Department of Electronics of the Government of India or a Joint Director in the Directorate of Industries of a State or an Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development of the Government of India, as the case may be, is satisfied that the goods in question are required for the purpose specified above and certifies to this effect and recommends grant of the above exemption :  Provided that this condition shall not apply in the case of goods imported against the following types of import licences, namely:—  (a) Automatic Licences ; and (b) Supplementary Licences.”	

[F.No. 346/23/83-TRU]

K.S. VENKATAGIRI, Under Secy.